

तारीख: 2 नवंबर, 2012

टेंडर नोटिस

विषय: संविदा आधार पर चालक भाड़े पर लेने के लिए संविदा दरें आमंत्रित करने संबंधी।

दिनांक 31.3.2013 तक की अवधि के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय में स्टाफ कार चलाने के लिए संविदा आधार पर एक चालक उपलब्ध कराने हेतु प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से संविदा दरें आमंत्रित की जाती हैं। इस समयावधि को मंत्रालय के विवेकानुसार समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक बोलीदाता निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं:-

1. प्रत्येक बोलीदाता को अपनी बोली द्विबोली प्रणाली अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के माध्यम से प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। तकनीकी और वित्तीय बोली के लिए निबंधन और शर्तें अनुबंध में दी गई हैं।
2. बोलीदाता का एक वैध पैन नंबर और टिन नंबर होना चाहिए तथा उनकी सत्यापित प्रतियां भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
3. प्रत्येक बोलीदाता को “वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली” के नाम ₹6,000/- के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी अपेक्षित है। असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि संविदा के बारे में अंतिम निर्णय ले लिए जाने पर लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाताओं की बयाना राशि संविदा के लागू रहने तक बतौर निष्पादन प्रतिभूति रख ली जाएगी।
4. सेवा की अवधि को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है।
5. कोटेशनों का लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए और उस पर “चालक भाड़े पर लेने के लिए संविदा दर” लिखा होना चाहिए तथा उसे डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से भेजा जाना/सौंपा जाना चाहिए ताकि वह अधोहस्ताक्षरी को शुक्रवार, 16 नवंबर, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे तक पहुंच जाए।
6. बोलीदाता को कीमत और सेवाकर, यदि कोई है, को पृथक रूप में दर्शाना चाहिए।

7. बोलियों को उसी दिन अर्थात 16 नवंबर, 2012 को अपराह्न 3.30 बजे उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय, 92, संसद भवन, नई दिल्ली के कक्ष में खोला जाएगा। संविदा दरों को खोले जाने के समय उपस्थित रहने की इच्छुक फर्मों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को ऐसा करने की अनुमति होगी परंतु उन्हें एक पहचान पत्र और फर्म के लैटर-हेड पर एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।
8. यह टेंडर नोटिस संसदीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात <http://www.mpa.gov.in> के अतिरिक्त [eprocure.gov.in](http://eprocure.gov.in) (CPP Portal) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
9. संविदा के निष्पादन से उत्पन्न हुए किसी विवाद की स्थिति में मामला इस मंत्रालय की संयुक्त सचिव को निर्दिष्ट किया जाएगा।
10. संविदा/आपूर्ति आदेश से उत्पन्न विवाद, यदि कोई होगा, का न्यायिक न्यायनिर्णयन केवल दिल्ली में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
11. किसी भी रूप में अपूर्ण बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और वे अस्वीकृत कर दी जाएंगी।
12. संसदीय कार्य मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी बोलियों को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकृत करने अथवा न्यूनतम बोलीदाता को ठेका नहीं देने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

भवदीय,

ह./-

(रामेश्वर प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन : 23034899

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनियोजित किए गए पूर्तिकारों को, यदि वे इच्छुक हों, अपनी दरें भेजने का अनुरोध किया जाए।
2. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि टेंडर नोटिस मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और 16 नवंबर, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाए।

तकनीकी और वित्तीय बोलियों के लिए निबंधन और शर्तें

तकनीकी बोली संबंधी अपेक्षाएं

क. जिन चालकों के पास निम्नलिखित योग्यताएं हों:-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो;
- (ii) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाईसेंस होना चाहिए;
- (iii) मोटर मकैनिक का ज्ञान (उम्मीदावार इतना सक्षम होना चाहिए कि वाहन की छोटी-मोटी गड़बड़ियों को ठीक कर सके);
- (iv) दिल्ली में न्यूनतम तीन वर्ष तक मोटर कार चलाने का अनुभव अधिमानतः किसी मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अन्य सरकारी संगठन में; और
- (v) गाड़ी चलाने में विहित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- (vi) दिल्ली की सड़कों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

ख. चालक का निवास स्थान अधिमानतः केंद्रीय दिल्ली या आस-पास होना चाहिए।

ग. चालक को छुट्टी के दिन सहित चौबीस घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ सकता है।

घ. फर्म को इस संबंध में बिल प्रस्तुत करने के पश्चात 2% की दर से टी.डी.एस. काट कर मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

वित्तीय बोली संबंधी अपेक्षाएं

क. वित्तीय बोली उपयोज्य करों सहित ₹ 15,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।